

- (i) “2025-26” अंकों के स्थान पर “2031-32” अंक रखे जाएंगे;
- (ii) “2024-25” अंकों के स्थान पर “2030-31” अंक रखे जाएंगे;
- (ख) उपनियम (3) के चौथे परंतुक में,-
- (i) “2025-26” अंकों के स्थान पर “2031-32” अंक रखे जाएंगे;
- (ii) “2024-25” अंकों के स्थान पर “2030-31” अंक रखे जाएंगे;
- (ग) उपनियम (4) के तीसरे परंतुक में,-
- (i) “2025-26” अंकों के स्थान पर “2031-32” अंक रखे जाएंगे;
- (ii) “2024-25” अंकों के स्थान पर “2030-31” अंक रखे जाएंगे;
- (घ) स्पष्टीकरण 1 में,-
- (i) खंड (घ) में, “2024” अंकों के स्थान पर “2030” अंक रखे जाएंगे;
- (ii) खंड (ङ) में, “2024” अंकों के स्थान पर “2030” अंक रखे जाएंगे;
- (iii) खंड (ज) के परंतुक में, “2024-25” अंकों के स्थान पर “2030-31” अंक रखे जाएंगे।

[फा.सं. 141/2025/फा.सं. 370142/30/2025-टीपीएल]

रोहित सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण:- आय-कर नियम, 1962 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 566(अ), तारीख 21 अगस्त 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st September, 2025
(INCOME-TAX)

G.S.R. 598(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 read with the fourth, fifth and sixth provisos and Explanation 3 to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Twenty-Fifth Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 2DCA,—
 - (a) in sub-rule (2), in the fourth proviso,—

- (i) for the figures “2025-26”, the figures “2031-32” shall be substituted;
- (ii) for the figures “2024-25”, the figures “2030-31” shall be substituted;
- (b) in sub-rule (3), in the fourth proviso,—
 - (i) for the figures “2025-26”, the figures “2031-32” shall be substituted;
 - (ii) for the figures “2024-25”, the figures “2030-31” shall be substituted;
- (c) in sub-rule (4), in the third proviso, —
 - (i) for the figures “2025-26”, the figures “2031-32” shall be substituted;
 - (ii) for the figures “2024-25”, the figures “2030-31” shall be substituted;
- (d) in *Explanation 1*,—
 - (i) in clause (d), for the figures “2024”, the figures “2030” shall be substituted;
 - (ii) in clause (e), for the figures “2024”, the figures “2030” shall be substituted;
 - (iii) in the proviso to clause (h), for the figures “2024-25”, the figures “2030-31” shall be substituted.

[F. No. 141/2025/F. No. 370142/30/2025-TPL]

ROHIT SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note: The Income-tax Rules, 1962 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 566(E) dated the 21st August, 2025.